

अपने मुख स्वास्थ्य पर गवं करें।

मुख स्वास्थ्य आनंद और सुख का स्रोत है।

चीनी दांतों के सङ्खने का एक मात्र कारण है।


कम चीनी का सेवन स्वास्थकारी होता है।



अपने मुख स्वास्थ पर गवं करें।

मुख स्वास्थ आनंद और सुख का स्रोत है।

दैनिक टूथब्रश और
फ्लॉस मुँह का
स्वास्थ बनाये
रखने में मदद
करता है।



World Oral
Health Day
20 March

fdi
FDI World Dental Federation




अपने मुख स्वास्थ पर गवं करें।

मुख स्वास्थ आनंद और सुख का स्रोत है।

सुखी जीवन और
आनंद के लिए अपने
मुख स्वास्थ का ध्यान
रखें।

आपके मुँह का स्वास्थ आप
की भावनाओं, सामाजिक,
मानसिक और सम्पूर्ण
शारीरिक स्वाथ से जुड़ा है।




अपने मुख स्वास्थ्य पर गवं करें।

मुख स्वास्थ्य आनंद और सुख का स्रोत है।

अपने डेंटिस्ट से
नियमित रूप
से सलाह लें।

सुखी जीवन के लिए
एक महत्वपूर्ण आदत।



World Oral
Health Day
20 March

fdi
FDI World Dental Federation

